



# Active Clothing Co. Limited

To,  
BSE Limited  
Listing Compliance  
P J Towers, Dalal Street,  
Mumbai - 400001, India.

Dated: 19.10.2024

Dear Sir/Madam,

**Ref.: ISIN - INE380Z01015**  
**Subject: Notice of Extra Ordinary General meeting**

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in the columns of Business Standard English, Chandigarh and Business Standard Hindi, Chandigarh on 19.10.2024, regarding notice of Extra Ordinary General Meeting of Active Clothing Co Limited.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,  
**For Active Clothing Co Ltd.**

**Rajesh Kumar Mehra**  
**(Managing Director)**  
**DIN: 00026176**

**CIN: L51311PB2002PLC033422**

REGISTERED OFFICE:  
Plot No. E-225, Industrial Focal Point, Phase 8 B  
SAS Nagar, Mohali 160059  
Punjab, India. Phone: +91-172-4313300

FACTORY :  
Village Badali Ala Singh, Ghel Link Road  
District Fatehgarh Sahib 140406, Punjab, India  
Phone: +91-1763-506000



VEENU SANDHU  
New Delhi, 18 October

In the opening scene of *The League of Gentlemen*, a 1960 British crime drama, a manhole opens in the street and the night and from it emerges the protagonist, Jack Hawkins. Straightening his dinner suit and bowtie, he quickly walks across the deserted street to a Rolls-Royce 20/25 and drives away. For the next minute and a half, the camera stays on the shiny black car as the credits roll to suspenseful music.

The Rolls-Royce 20/25, which also features prominently in the British comedy, *Father Came Too!* (1963), and the action-horror, *The Brides of Dr. Manchu* (1966), was built from 1929 to 1936 — the period between the two World Wars. So successful was it that it helped Rolls-Royce survive the decade-long Great Depression, which coincidentally began the year this model was introduced.

In all 3,827 cars were manufactured, one of which, a 1934 Rolls-Royce 20/25 limousine built by Thrupp & Maberly, the coach makers to Queen Victoria, will come up for bidding at AstaGuru's fifth vintage car auction in the third week of November, to be conducted online.

Well-designed and easier to maintain, vintage cars are reported to be still in use globally. In India, though, where they will not be able to drive it around routinely.

The law of the land does not permit vintage cars to be driven for regular or commercial purposes. These head turners are allowed on the road only for exhibition, maintenance, refuelling, or for one of rallies that require permission. Their owners cannot park them in public.


None of this stops the enthusiasts from participating in private sales and auctions, held largely online by organisations such as AstaGuru, Heritage Auctions, and Big Buy Toys.

It is a niche segment, and forms a fraction of the global classic car market, which Statista projects will touch about \$4.4 billion this year. Europe and North America dominate the scene.

**Stamp of approval**

Classic cars are counted as passion buys, alongside luxury watches, art, jewellery, bespoke handbags, wine, rare whisky, and so on.

Knigh Frank's "The Wealth Report 2024" finds that in India, ultra-high-



▲ Rolls-Royce Silver Wraith 1947 (saloon, petrol)  
Engine type: 4 cyl  
Engine capacity: 3000cc  
Transmission: Manual  
Sold for ₹17,057,972 in 2018 (highest recorded bid at AstaGuru)

# UP THE MEMORY LANE

With registration of vintage cars formalised and rise of ultra-rich Indians, brace up for a beauty parade

▲ Jaguar Mark IV, 1948 (sedan, petrol)  
Engine type: 6 cyl  
Engine capacity: 3500cc  
Transmission: 4 speed, floor shift

▲ Porsche 911 - 996.2, 2003 (coupe, petrol)  
Engine type: 6 cyl  
Engine capacity: 3600cc  
Transmission: 6 speed, floor shift



▲ Standard Herald, 1971 (coupe, petrol)  
Engine type: 4 cyl  
Engine capacity: 948cc  
Transmission: 4 speed, floor shift

net-worth individuals (UHNWIs) spend 17 per cent of their investment on these categories. Luxury watches get the lion's share, followed by art, jewellery and classic cars. Globally, classic cars come third in the pecking order, behind art and watches.

Those in the vintage car business in India are confident that the pool of collectors will increase. That is not just because of all countries, India will see the highest increase in the number of UHNWIs (Knight Frank report), who are defined as those with a net worth of at least \$50 million. It is also because the law has finally given a stamp of approval to vintage cars.

In 2021, the Ministry of Road Transport and Highways amended the

Central Motor Vehicles Rules 1989, formalising the registration process of vintage vehicles. The rules allowed all two- and four-wheeled aged more than 50 years to be registered as vintage motor vehicles, provided they had

been maintained in their original form and had not undergone substantial overhaul.

Auction houses are broadening the range of cars they are putting up.

AstaGuru's November auction of 15-

plus vehicles will, for instance, showcase not just vintage (dating 1901 to 1949), but also classic (1950-1985), and modern classic (1986-2005) cars.

Besides the 1934 Rolls-Royce 20/25 and 1948 Jaguar Mark IV, the blacked-out will be the most recent Fiat Elegante and a 1971 Standard Herald white and red coupe. In the modern classic category will be a limited-edition 2003 Porsche 911, which had launched on the 911's 40th anniversary.

It is the only one of its kind in India, says Anuram Kazi, AstaGuru's vintage and classic car specialist, who is also a collector.

Porsche had brought out 1,963 units of this model to commemorate 911's birth in 1963. In its original avatar, the special-edition model bore the slogan "40 Jahre" (40 years) and its body was silver. The owner (name and its body undisclosed) personalised it — as many vintage car owners do — and gave it a different set of wheels plus a blue exterior.

**Range of aficionados**

One would imagine that it is mainly men of a certain age group who dominate the vintage car market. Kazi, however, says the demographic profile of the bidders varies depending on the type of cars.

"For vintage and classic cars, the majority of collectors tend to be

between 45 and 85 years," he says.

For classic and modern classic cars, Kazi sees bidders typically falling between 18 and 55 years, showcasing the broad appeal of these vehicles. "In terms of gender, though the majority of our bidders are male, with about 20 per cent participation, we are also seeing growing interest from female collectors, who now make up approximately 30 per cent of our audience," he adds.

Only serious bidders are entertained, and whether it is AstaGuru, Heritage Auctions, or Big Buy Toys, each has a way of keeping the frivolous ones out.

"All first-time bidders are required to make a security deposit, which amounts to 10 per cent of their intended bidding limit," says Kazi. For instance, if a bidder is interested in a car valued at ₹1 crore, they would need to place a deposit of ₹10 lakh. The deposit structure is designed to provide confidence to buyers and sellers.

There is also the taxation aspect. "Vintage vehicle owners must focus on capital gains tax if they decide to sell their classic automobile for a profit," says Rajarshi Dasgupta, executive director, Tax, AQUILA, a Delhi-based law firm. Sometimes, he adds, offer tax incentives or reduced rates on vintage vehicle owners who obtain heritage status for their automobiles.

"This recognition is given to vehicles of exceptional historical or cultural significance — which usually are good enough to earn a movie screen for a minute-and-a-half-hour suspenseful music plays.

**District Level Micro & Small Facilitation Council, Ludhiana**

**Notice to Appear Attend Proceedings of DLM&SFC-Ldh**

Through this publication this is to for Constructive Notice for respondent Pannagar Agro Foods Pvt Limited Kabani Road, Near Balaji Chitrakanta Panipat-06 (Haryana) to appear in person or through Authorized representative before the District level Micro & Small Facilitation Council Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana on 22.10.2024 at 10:00 AM regarding claim reference petition submitted by claimant Sangam Packers, 538/25B, Sus Road, Gaspura, Dhandan Kalan Ludhiana (Punjab) bearing Reference No: PB/12/ML/UD/2956 under MSMD Act, 2006. If respondent still fails or omits to appear as above then Arbitration proceedings shall be conducted as per section 23 & 25 of Arbitration & Conciliation Act and award shall also be passed on the basis of evidence on file.

**Member Secretary cum General Manager**  
District Industries Centre  
Industrial Estate, Ludhiana  
Phone: 0161-2546095  
Email: idc.ludhiana@gmail.com  
Ludhiana.msfc@gmail.com

**MCX METAL & ENERGY**  
Trade with Trust  
Multi Commodity Exchange of India Limited  
Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093.  
www.mcxindia.com

**NOTICE**

NOTICE is hereby given that **Narech Commodities Private Limited** Member of Multi Commodity Exchange of India Ltd. (Exchange), having Member ID - 16150 and SEBI Registration No. INZ00050737 has requested for the surrender of its Membership of the Exchange.

Any client(s)/constructors of the above Member, having any claim/dispute/complaint against the Member, arising out of the transactions executed on MCX platform, may lodge their claim within 60 days of this notification, failing which, it shall be deemed that no claim exist against the above referred Member or such claim, if any, shall be deemed to have been waived. The complaints so lodged will be dealt with in accordance with the Bye-Laws, Rules and Business Rules of the Exchange.

The Client(s)/Constituent(s) may submit their claim on the online portal of the Exchange (<https://igs.mcxindia.com>) or provide "Client Complaint Form" (available at [www.mcxindia.com](http://www.mcxindia.com)) in hard copy to Investor Services Department, Multi Commodity Exchange of India Ltd., Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093 or email it at [grievance@mcxindia.com](mailto:grievance@mcxindia.com).

Upon surrender of Membership, the Authorised Person(s) (APs), if any, registered through this Member shall also cease to exist and therefore, such APs are not authorized henceforth to deal in that capacity.

Place: Mumbai  
Date: October 18, 2024

**For Multi Commodity Exchange of India Ltd. Sr. Authorised Signatory - Membership Department**

**ACTIVE CLOTHING COLIMITED**  
Regd. Off: Plot No. E-225, Phase-VI-B, Industrial Area, Focal Point, Mohali, PB - 1422413303  
Email: [registrar@activeclothing.com](mailto:registrar@activeclothing.com)  
CIN: 151120227MPC02322

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 11th Extra Ordinary General Meeting for Financial Year 2024-25 of the Members of Active Clothing Co. Limited will be held at the Registered Office of the Company at Plot No. E-225, Phase-VI-B, Industrial Area, Focal Point, Mohali on Monday, 11th Day of November, 2024 at 11:30 A.M. to transact the business. Resolutions to be taken in pursuance of the said business are as follows:

- The Company (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The company has provided E-Voting Facility to its members, to exercise their right to vote electronically on the special business as set out in Notice calling EOGM through electronic voting system (Vote of Signatory Services Pvt. Ltd. This details are required to be given under the Act and rules made thereunder as follows:
- The E-Voting period shall commence on Friday, 08th November, 2024 (at 9:00 A.M.) and shall end on Sunday, 10th November, 2024 (at 5:30 P.M.). E-Voting module shall not be allowed beyond the said date and time.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of Beneficial Owners maintained by NSDL/CDSC, as on cutoff date i.e. Friday 1st November, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote E-Voting as well as voting in the EOGM.
- Dividend ID is 474.
- The Voting rights of members shall be proportion to their shares of the paid up equity share capital of the company as on the cutoff date.
- The facility of voting through Ballot paper shall also be made available at the venue of EOGM for the members who have not cast their votes through remote E-Voting. In case, any member cast votes through both the modes, the voting through ballot shall be treated as invalid.
- The Notice of EOGM is also available on the website of the Company i.e. [www.activeclothing.com](http://www.activeclothing.com) and on the website <https://www.evotingindia.com>.
- A member may participate in the GM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- The scrutinizer shall upon the conclusion of the e-voting period to block the votes in respect of votes cast in favour and against, if any, for/against to the chairman of the company. The result of the resolution passed at the EOGM will be declared within Two days from the Conclusion of EOGM.
- In case shareholders / investor have any queries regarding E-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and e-Voting module available at <https://www.evotingindia.com>, under download section for any queries. You may also write to [info@evotingindia.com](mailto:info@evotingindia.com) or call us at: 1800-224422 Alternatively, the Members may also write an e-mail to the Company at [registrar@activeclothing.com](mailto:registrar@activeclothing.com).

for Active Clothing Co. Limited  
Sd/-  
Amit Kaur Badi  
Company Secretary

Place: Mohali  
Date: 17.10.2024

**Ind Bank Housing Ltd.**  
(A Subsidiary of Indus Bank)  
Registered Office: 3rd Floor, Khana Complex 1, No. 480, Ansa Saki, Nandambam, Chennai 600 035.  
CIN No. L52227IN1991PLD02019 | Email: [indbankhousing@indusbank.com](mailto:indbankhousing@indusbank.com) | Website: [www.indbankhousing.com](http://www.indbankhousing.com) | Ph: 2432 9235

**Statement of unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.09.2024**

Sl. No.	Particulars	Three months ended	Year to date figures for the current period ended	Corresponding three months ended in the previous year
		30.09.2024	30.09.2024	30.09.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
		Rs. Lakhs	Rs. Lakhs	Rs. Lakhs
1.	Total Income	6.01	12.28	7.13
2.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items	(8.34)	(20.26)	(48.48)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(8.34)	(20.26)	(48.48)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(8.34)	(20.26)	(48.48)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(8.34)	(20.26)	(48.48)
6.	Equity Share Capital	(8.34)	(20.26)	(48.48)
7.	Reserves (including Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of previous year	1000.00	1000.00	1000.00
8.	Earnings Per Share (EPS) (Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic 2. Diluted	(0.38) (0.38)	(1.0355) (1.0355)	(1.2587) (1.2587)
		(0.38) (0.38)	(0.20) (0.20)	(0.48) (0.48)

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchange Websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and our company website: [www.indbankhousing.com](http://www.indbankhousing.com)

By the Order of the Board  
V HARIBABU  
MANAGING DIRECTOR

Place: Chennai  
Date: 18.10.2024

**wipro**  
**WIPRO LIMITED**  
Registered Office: Doddakannelli, Sarjapur Road, Bengaluru - 560 035.  
Tel: +91-80-28440011; CIN: L32102KA1945PLC02800  
Website: [www.wipro.com](http://www.wipro.com); Email: [corp-secretariat@wipro.com](mailto:corp-secretariat@wipro.com)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

1. Notice is hereby given pursuant to and in compliance with the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 09/2023 dated September 26, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Secretarial Standard SS-2 issued by the Ministry of Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, and as amended from time to time), and pursuant to other applicable laws and regulations, the approval of Members of Wipro Limited (the "Company") is being sought for the following ordinary resolution by way of postal ballot (the "e-voting process" ("e-voting")):

Sl. No.	Description of Ordinary Resolution
1.	Issue of Bonus Shares

2. Electronic copies of the Postal Ballot Notice, procedure and instructions for e-voting will be sent only by electronic mode to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s). In respect of shares held in physical form, Members may register their email id by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech"), in the Colson Building, Tower-B, Plot Telangana, India - 500 032, along with the duly filled in form ISR-1 available at <https://www.wipro.com/investor/ange>.

3. Postal Ballot Notice will be made available on the Company's website at [www.wipro.com](http://www.wipro.com), websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, and on the website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com>.

4. The Company is providing the facility to its members to exercise their right to vote on the business that will be set forth in the Postal Ballot Notice by electronic means through remote e-voting.

5. Members who hold shares in dematerialized form and want to provide/change/correct the bank account details should send the same to their concerned Depository Participant and not to the Company. Members are also requested to give the MICR Code of their bank to their Depository Participants.

6. Members who are holding shares in physical form are advised to submit particulars of their bank account, viz. name and address of the branch of the bank, MICR code of the branch, type of account and account number to KFinTech. Members are also requested to opt for the Electronic Clearing Service (ECS) mode to receive dividend on time.

7. For queries regarding e-voting:

- Members holding securities in physical form and non-individual Members may contact KFinTech at the toll-free No. 1900-3094-001 or contact Ms. Swati Reddy, Manager, KFinTech write to them [swatireddy@kfintech.com](mailto:swatireddy@kfintech.com) and [swati@kfintech.com](mailto:swati@kfintech.com) for any clarifications.
- Individual Members holding shares through NSDL, may contact NSDL, helpdesk by writing to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or calling the toll-free no. 18001020980.
- Individual Members holding shares through CDSL, may contact CDSL, helpdesk by writing to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or calling the toll-free no. 1900225533.
- Members who are voting through the facilities provided by their Depository Participants, may contact their respective Depository Participants on their helpline/contact details.

Date: October 18, 2024  
Place: Bengaluru

**For WIPRO LIMITED**  
M Saraula Khan  
Company Secretary



